



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2007/पौष 21, 1928

No. 12]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2007/PAUSA 21, 1928

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007

सं. 54-ईएल(1)/13/2007.—भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, चार्टर्ड एकाउंटेंट (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 36 के अनुसरण में सर्वसाधारण की सूचना के लिए संस्थान की बीसवीं परिषद् के लिए नीचे दिए गए निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के नामों, सदस्यता संख्याओं और उनके स्थानों को अधिसूचित करता है :—

1. गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों को सम्मिलित करने वाला पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र ।

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	अद्विकिया राजकुमार सत्यनारायण, एफसीए	34769	मुंबई
2.	अग्रवाल उत्तम प्रकाश, एफसीए	41986	मुंबई
3.	भेड़ा अतुल चुन्नी लाल, एफसीए	38108	मुंबई
4.	दोषी भावना गौतम, एफसीए	30144	मुंबई
5.	गोखले जयन्त पुरुषोत्तम, एफसीए	33767	मुंबई
6.	जैन पंकज इंद्रचंद, एफसीए	48850	मुंबई
7.	महात्मे प्रीति प्रदीप, एफसीए	107335	पणजी-गोवा
8.	महेश्वरी संजीवकृष्ण गोपाल, एफसीए	38755	मुंबई
9.	शारदा महेश पनसुखलाल, एफसीए	15145	मुंबई
10.	शाह जयदीप नरेन्द्र, एफसीए	41002	नागपुर
11.	तलाटी सुनील हिम्मतलाल, एफसीए	17638	अहमदाबाद

2. आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों को सम्मिलित करने वाला दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र ।

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	डागा शांतिलाल, एफसीए	11617	हैदराबाद
2.	गोपालकृष्णन एस., एफसीए	18863	हैदराबाद
3.	जेम्स वी. सी., एफसीए	22565	कोच्चि
4.	मुरली वी., एफसीए	25952	चेन्नई
5.	रघु के., एफसीए	200145	बैंगलोर
6.	रामास्वामी जी., एफसीए	23076	कोयम्बटूर
7.	सान्थनाकृष्णन एस., एफसीए	19071	चेन्नई
8.	वेंकटेश्वरलु जे., एफसीए	22481	हैदराबाद

3. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र को सम्मिलित करने वाला पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र ।

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	अग्रवाल सुबोध कुमार, एफसीए	54670	कोलकाता
2.	बंधोपाध्याय अभिजीत, एफसीए	54785	कोलकाता
3.	खंडेलवाल काशी प्रसाद, एफसीए	50244	कोलकाता

4. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित करने वाला मध्य भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र ।

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	फड़नीस मनोज, एफसीए	72707	इंदौर
2.	गर्ग विजय कुमार, एफसीए	76387	जयपुर
3.	गोयल अनुज, एफसीए	75710	गाजियाबाद
4.	गुप्ता अक्षय कुमार, एफसीए	70744	कानपुर

5. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों को सम्मिलित करने वाला उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र ।

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	चोपड़ा अमरजीत, एफसीए	16984	नई दिल्ली
2.	गुप्ता विजय कुमार, एफसीए	86481	फरीदाबाद
3.	हरिन्दरजीत सिंह, एफसीए	86994	नई दिल्ली
4.	जैन वेद कुमार, एफसीए	80108	नई दिल्ली
5.	जैन विनोद, एफसीए	81263	नई दिल्ली
6.	नंदा चरणजीत सिंह, एफसीए	89658	नई दिल्ली

डॉ अशोक हल्दिया, सचिव
[विज्ञापन III/IV/असा./104/2006]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION (Chartered Accountants)

New Delhi, the 11th January, 2007

No. 54-EL(1)/13/2007.—In pursuance of Rule 36 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify for general information the names, membership numbers and places of the members, who have been elected to the Twentieth Council of the Institute from the Constituencies as given below :—

1. Western India Regional Constituency comprising the States of Goa, Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

Sl.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri/Ms.		
1.	Adukia Rajkumar Satyanarayan, FCA	34769	Mumbai
2.	Agarwal Uttam Prakash, FCA	41986	Mumbai
3.	Bheda Atul Chunilal, FCA	38108	Mumbai
4.	Doshi Bhavana Gautam, FCA	30144	Mumbai
5.	Gokhale Jayant Purushottam, FCA	33767	Mumbai
6.	Jain Pankaj Inderchand, FCA	48850	Mumbai
7.	Mahatme Preeti Pradip, FCA	107335	Panaji-Goa
8.	Maheshwari Sanjeev Krishnagopal, FCA	38755	Mumbai
9.	Sarda Mahesh Pansukhlal, FCA	15145	Mumbai
10.	Shah Jaydeep Narendra, FCA	41002	Nagpur
11.	Talati Sunil Himatlal, FCA	17638	Ahmedabad

2. Southern India Regional Constituency comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry.

Sl.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri		
1.	Daga Shanti Lal, FCA	11617	Hyderabad
2.	Gopalakrishnan S., FCA	18863	Hyderabad
3.	James V.C., FCA	22565	Kochi
4.	Murali V., FCA	25952	Chennai
5.	Raghu K., FCA	200145	Bangalore
6.	Ramaswamy G., FCA	23076	Coimbatore
7.	Santhanakrishnan S., FCA	19071	Chennai
8.	Venkateswarlu J., FCA	22481	Hyderabad

3. Eastern India Regional Constituency comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, West Bengal and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.

Sl.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri		
1.	Agrawal Subodh Kumar, FCA	54670	Kolkata
2.	Bandyopadhyay Abhijit, FCA	54785	Kolkata
3.	Khandelwal Kashi Prasad, FCA	50244	Kolkata

4. Central India Regional Constituency comprising the States of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttaranchal and Uttar Pradesh.

Sl.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri		
1.	Fadnis Manoj, FCA	72707	Indore
2.	Garg Vijay Kumar, FCA	76387	Jaipur
3.	Goyal Anuj, FCA	75710	Ghaziabad
4.	Gupta Akshay Kumar, FCA	70744	Kanpur

5. Northern India Regional Constituency comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Punjab and the Union Territories of Chandigarh and Delhi.

Sl.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri		
1.	Chopra Amarjit, FCA	16984	New Delhi
2.	Gupta Vijay Kumar, FCA	86481	Faridabad
3.	Harinderjit Singh, FCA	86994	New Delhi
4.	Jain Ved Kumar, FCA	80108	New Delhi
5.	Jain Vinod, FCA	81263	New Delhi
6.	Nanda Charanjot Singh, FCA	89658	New Delhi

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

[ADVT-III/IV/Exty./104/2006]

अधिसूचना
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007

सं. 54-ईएल(1)/14/2007.—भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, चार्टर्ड एकाउंटेंट (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 36 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 134 (10) के उपबंधों के अनुसरण में सर्वसाधारण की सूचना के लिए संस्थान की उन्नीसवीं क्षेत्रीय परिषदों के लिए नीचे दिए गए अनुसार निर्वाचित सदस्यों के नामों, सदस्यता संख्याओं और उनके स्थानों को अधिसूचित करता है :—

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद्

क्रम सं.	ग्राम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	अग्रवाल ब्रिजमोहन, एफसीए	33254	मुंबई
2.	बुच-दुर्गेश वामनरे, एफसीए	37899	अहमदाबाद
3.	छाजेड़ प्रफुल्ल प्रेमसुख, एफसीए	47690	मुंबई
4.	गणपुले माधव गोविंद, एसीए	38563	पुणे
5.	हेगड़े नंदकिशोर चिदम्बर, एफसीए	40197	मुंबई
6.	जैन बाल चंद, एफसीए	48219	मुंबई
7.	जोशी मकरंद मधुसूदन, एफसीए	47196	नागपुर
8.	जोशी श्रीनिवास यशवत, एफसीए	32523	मुंबई
9.	कांबरा दुर्गेश कुमार, एफसीए	44075	मुंबई
10.	खंडेलवाल धीरज कुमार, एफसीए	105591	मुंबई
11.	किनारे मंगेश पांडुरंग, एफसीए	45481	मुंबई
12.	लाहोटी राकेश बालुराम, एफसीए	106383	गांधीनगर
13.	ललन संजीव दुंगारशी, एफसीए	45329	मुंबई
14.	नागर अश्विन कुमार, एफसीए	46687	अहमदाबाद
15.	पगरिया अशोक कुमार नैनसुख, एफसीए	34311	पुणे
16.	पारिख अतुलकुमार नानालाल, एफसीए	30800	वदोदरा
17.	पटेल भाईलालभाई कांजीभाई, एफसीए	32199	अहमदाबाद
18.	पटौदिया सुनिल कुमार, एफसीए	45489	मुंबई
19.	पवार चंद्रकांत वसंत, एफसीए	107703	नासिक
20.	राठी बाल किशन, एफसीए	84361	सूरत
21.	शाह राजू चंद्रकांत, एफसीए	39024	अहमदाबाद
22.	शाह शाहरुल दिलीप, एसीए	113860	मुंबई

11541/07-2

दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	अरुलोल्ली पी.आर., एफसीए	200468	चेन्नई
2.	बाबु अब्राहम, एफसीए	26973	कोच्चि
3.	देवराज रेड्डी एम., एफसीए	26202	हैदराबाद
4.	जोस वी. एक्स., एफसीए	203068	कोच्चि
5.	माधव मूर्ती के.एस., एफसीए	29946	बैंगलोर
6.	मूरलीधरन के. पी., एफसीए	27923	चेन्नई
7.	नरेश चंद्र गेल्ली वी., एफसीए	201754	हैदराबाद
8.	प्रसन्न कुमार डी., एफसीए	23999	विशाखापटनम
9.	राजराजेश्वरन पी.वी., एफसीए	25264	मद्रै
10.	राजेन्द्र कुमार पी., एफसीए	204314	चेन्नई
11.	राजगोपाल ए., एफसीए	205296	बैंगलोर
12.	सत्यनारायण जी.वी.वी., एफसीए	24021	विजयवाड़ा
13.	शानमुख सुन्दरम के., एफसीए	26847	कोयम्बटूर
14.	सुरेश पी.आर., एफसीए	27488	बैंगलोर
15.	विश्वनाथ के., एफसीए	22812	बैंगलोर

पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	अग्रवाल राजेन्द्र प्रसाद, एफसीए	51979	राउरकेला
2.	भट्टाचार्य प्रसून कुमार, एफसीए	530002	कोलकाता
3.	चुन्देर सुवेन्दु, एफसीए	56093	कोलकाता
4.	गोयल सुशील कुमार, एफसीए	57534	कोलकाता
5.	हल्दर निरूपम, एफसीए	3755	कोलकाता
6.	जैन सोनू, एफसीए	60015	कोलकाता
7.	जैन विकास, एफसीए	56982	कोलकाता

मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	अग्रवाल ध्रुव कुमार, एफसीए	87665	नोएडा
2.	भंसाली सुधीर, एफसीए	73267	जयपुर
3.	कपूर राज, एफसीए	76113	लखनऊ
4.	कुशवाह मुकेश सिंह, एफसीए	96656	गाजियाबाद
5.	सिलोट राजेशकुमार, एफसीए	72865	इंदौर
6.	शारदा नटवर कुमार, एफसीए	76070	जयपुर
7.	शुक्ला दिनेश चंद्र, एफसीए	72308	कानपुर
8.	विजयवर्गिया अशोक, एफसीए	70862	ग्वालियर

[**टिप्पणी** : परिणाम की घोषणा इलाहाबाद स्थित अधिकारिता रखने वाले माननीय उच्च न्यायालय के धीरेन्द्र सिंह सिन्हा बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक वाली 2006 की रिट याचिका सं.63342 में निर्णय के अध्वधीन है ।]

उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद्

क्रम सं.	नाम	सदस्यता सं.	स्थान
	सर्व/श्री/सुश्री		
1.	अग्रवाल सुधीर कुमार, एफसीए	88583	दिल्ली
2.	अग्रवाल दीन दयाल, एफसीए	48545	दिल्ली
3.	अग्रवाल दुर्गा दास, एफसीए	85575	दिल्ली
4.	बबुता सुखेनपाल, एफसीए	86348	चंडीगढ़
5.	बलदेव कुमार, एफसीए	92225	चंडीगढ़
6.	गोयल राजीव, एफसीए	97431	दिल्ली
7.	गुप्ता अतुल कुमार, एफसीए	97009	दिल्ली
8.	गुप्ता भगवान दास, एफसीए	86260	नई दिल्ली
9.	मित्तल मोहन लाल, एफसीए	85705	नई दिल्ली
10.	शर्मा राजेश, एफसीए	98258	नई दिल्ली
11.	त्यागी पंकज, एसीए	502257	दिल्ली
12.	वर्मा विपिन, एफसीए	94959	दिल्ली

डॉ अशोक हल्दिया, सचिव

[विज्ञापन-III/IV//असल/104/2006]

115 GI/07-3

NOTIFICATION
(Chartered Accountants)

New Delhi, the 11th January, 2007

No. 54-EL(1)/14/2007.—In pursuance of provisions of Regulation 134 (10) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with Rule 36 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify for general information the names, membership numbers and places of the members, who have been elected to the Nineteenth Regional Councils of the Institute as given below :—

WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

Sl.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri		
1.	Agarwal Brijmohan, FCA	33254	Mumbai
2.	Buch Durgesh Vamanray, FCA	37899	Ahmedabad
3.	Chhajed Prafulla Premsukh, FCA	47690	Mumbai
4.	Ganpule Madhav Govind, ACA	38563	Pune
5.	Hegde Nandkishore Chidamber, FCA	40197	Mumbai
6.	Jain Bal Chand, FCA	48219	Mumbai
7.	Joshi Makarand Madhusudhan, FCA	47196	Nagpur
8.	Joshi Shrinivas Yeshwant, FCA	32523	Mumbai
9.	Kabra Durgesh Kumar, FCA	44075	Mumbai
10.	Khandelwal Dhiraj Kumar, FCA	105591	Mumbai
11.	Kinare Mangesh Pandurang, FCA	45481	Mumbai
12.	Lahoti Rakesh Baluram, FCA	106383	Gandhinagar
13.	Lalan Sanjeev Dungarshi, FCA	45329	Mumbai
14.	Nagar Ashwin Kumar, FCA	46687	Ahmedabad
15.	Pagariya Ashokkumar Nensukh, FCA	34311	Pune
16.	Parikh Atulkumar Nanlal, FCA	30800	Vadodara
17.	Patel Bhailalbhai Kanjibhai, FCA	32199	Ahmedabad
18.	Patodia Sunil Kumar, FCA	45489	Mumbai
19.	Pawar Chandrakant Vasant, FCA	107703	Nashik
20.	Rathi Bal Kishan, FCA	84361	Surat
21.	Shah Raju Chandrakant, FCA	39024	Ahmedabad
22.	Shah Shardul Dilip, ACA	113860	Mumbai

SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

Sl.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri		
1.	Aruloli P.R., FCA	200468	Chennai
2.	Babu Abraham, FCA	26973	Kochi
3.	Devaraja Reddy M., FCA	26202	Hyderabad
4.	Jose V.X., FCA	203068	Kochi
5.	Madhava Murthy K.S., FCA	29946	Bangalore
6.	Muralidharan K.P., FCA	27923	Chennai
7.	Naresh Chandra Gelli. V., FCA	201754	Hyderabad
8.	Prasanna Kumar D., FCA	23999	Visakhapatnam

9.	Rajarajeswaran P.V., FCA	25264	Madurai
10.	Rajendra Kumar P., FCA	204314	Chennai
11.	Rajgopal A., FCA	205296	Bangalore
12.	Satyanarayana G.V.V., FCA	24021	Vijayawada
13.	Shanmukha Sundaram K., FCA	26847	Coimbatore
14.	Suresh P.R., FCA	27488	Bangalore
15.	Viswanath K., FCA	22812	Bangalore

EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

Sl.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri/Ms.		
1.	Agarwala Rajendra Prasad, FCA	51979	Rourkela
2.	Bhattacharyya Prasun Kumar, FCA	53002	Kolkata
3.	Chunder Suwendu, FCA	56093	Kolkata
4.	Goyal Sushil Kumar, FCA	57534	Kolkata
5.	Haldar Nirupam, FCA	3755	Kolkata
6.	Jain Sonu, FCA	60015	Kolkata
7.	Jain Vikash, FCA	56982	Kolkata

CENTRAL INDIA REGIONAL COUNCIL

S.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri		
1.	Agrawal Dhruva Kumar, FCA	87665	Noida
2.	Bhansali Sudhir, FCA	73267	Jaipur
3.	Kapoor Raj, FCA	76113	Lucknow
4.	Kushwah Mukesh Singh, FCA	96656	Ghaziabad
5.	Selot Rajesh Kumar, FCA	72865	Indore
6.	Sharda Natwar Kumar, FCA	76070	Jaipur
7.	Shukla Dinesh Chandra, FCA	72308	Kanpur
8.	Vijaywargiya Ashok, FCA	70862	Gwalior

[**Note:** Declaration of result is subject to the decision of Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in W.P. No. 63342 of 2006 titled as Dharendra Singh Sinha -vs- Union of India and others.]

NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

S.No.	Names	Membership Number	Place
	S/Shri		
1.	Agarwal Sudhir Kumar, FCA	88583	Delhi
2.	Agrawal Deen Dayal, FCA	48545	Delhi
3.	Agrawal Durga Das, FCA	85575	Delhi
4.	Babuta Sukhen Paul, FCA	86348	Chandigarh
5.	Baldev Kumar, FCA	92225	Chandigarh
6.	Goel Rajiv, FCA	97431	Delhi
7.	Gupta Atul Kumar, FCA	97009	Delhi

8.	Gupta Bhagwan Das, FCA	86260	New Delhi
9.	Mittal Mohan Lal, FCA	85705	New Delhi
10.	Sharma Rajesh, FCA	98258	New Delhi
11.	Tyagee Pankaj, ACA	502257	Delhi
12.	Verma Vipin, FCA	94959	Delhi

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

[ADVT III/IV/Exty./104/2006]